



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 6 जनवरी, 2022

पौष 16, 1943 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,
ASHOKA ROAD,
NEW DELHI-110001

6th January, 2022,

Dated : _____
16 Pausha, 1943 (Saka),

NOTIFICATION

No. 434/UP-LA/2021(1) :- In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby, makes the following further amendments in its Notification No. 434/UP-LA/2021(1), dated 2nd July, 2021, as amended from time to time, relating to appointment of Assistant Returning Officers of Assembly Constituency in the State of Uttar Pradesh;

In column (2) of the Table appended to the said Notification, the existing entries shown against the Assembly Constituencies mentioned in column (1) of the Table, shall be substituted/added with the following entries :-

TABLE

S. No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
(1)	(2)
21. Nehtaur (SC)	1. Tehsildar, Bijnor
22. Bijnor	1. Block Development Officer, Seohara
27. Moradabad Rural	1. Block Development Officer, Dilari
29. Kundarki	1. Block Development Officer, Mundapandey
58. Dhaulana	2. District Cane Officer, Hapur
59. Hapur (SC)	2. Asstt. Commissioner and Asstt. Registrar, Co-operative Society, Hapur
76. Aligarh	2. Consolidation Officer, Aligarh
116. Shekhupur	1. District Program Officer, Budaun

(1)	(2)
123. Bithari Chainpur	1. Block Development Officer, Majhgawan
142. Lakhimpur	1. Block Development Officer, Nakha
171. Lucknow West	1. District Social Welfare Officer, Lucknow
172. Lucknow North	2. District Minority Welfare Officer, Lucknow
173. Lucknow East	1. District Probation Officer, Lucknow
174. Lucknow Central	2. District Horticulture Officer, Lucknow
194. Farrukhabad	1. District Probation Officer, Farrukhabad
200. Etawah	2. Block Development Officer, Badpura
211. Kalyanpur	2. Assistant Commissioner, Industries DIC, Kanpur Nagar
214. Aryanagar	1. Block Development Officer, Patara, Kanpur Nagar
215. Kidwai Nagar	2. Assistant Commissioner, Trade Tax-11, Kanpur Nagar
217. Maharajpur	3. Assistant Director Fisheries, Kanpur Nagar
218. Ghatampur (SC)	2. District Plant Protection Officer, Kanpur Nagar
239. Bindki	1. Block Development Officer, Malwan
	2. Consolidation Officer, Khaga
240. Fatehpur	1. Consolidation Officer, Sadar
	2. Land Conservation Officer, EC-Khaga, Fatehpur
243. Khaga (SC)	1. Block Development Officer, Hathgam
	2. District Employment Officer, Fatehpur
246. Kunda	1. Block Development Officer, Kalakakar
269. Zaidpur (SC)	1. Block Development Officer, Masauli
285. Mahasi	1. District Agriculture Officer, Bahraich
289. Bhingra	3. Block Development Officer, Hariharpurani
290. Shrawasti	3. Block Development Officer, Gilaula
296. Gonda	1. Block Development Officer, Jhanjhari, Gonda
327. Bansaon (SC)	3. Block Development Officer, Kaudiram
347. Azamgarh	1. Block Development Officer, Ahiroula, Azamgarh
375. Ghazipur	1. Block Development Officer, Karanda
388. Varanasi North	1. Deputy Dairy Development Officer, Varanasi
	3. Deputy Director Backward Welfare, Varanasi
390. Varanasi Cantt.	3. Assistant Labour Commissioner, Varanasi
397. Majhawan	1. Block Development Officer, Chhanbey

By order,
ASHWANI KUMAR MOHAL,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

दिनांक: 6 जनवरी, 2022
16 पौष, 1943 (शक)

अधिसूचना

संख्या 434/उ0प्र0-वि0स0/2021(1) :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति से संबंधित, समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 434/उ0प्र0-वि0स0/2021(1), दिनांक 2 जुलाई, 2021 में आगे निम्न संशोधन करता है;

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ (1) में दिये गये निर्वाचन क्षेत्रों के सामने सारणी के स्तम्भ (2) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित/जोड़ी जायेंगी :-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
(1)	(2)
21-नहटौर (अ0जा0)	1-तहसीलदार, बिजनौर
22-बिजनौर	1-खण्ड विकास अधिकारी, स्योहारा
27-मुरादाबाद ग्रामीण	1-खण्ड विकास अधिकारी, डिलारी
29-कुदरकी	1-खण्ड विकास अधिकारी, मूढापाण्डे
58-धौलाना	2-जिला गन्ना अधिकारी, हापुड़
59-हापुड़ (अ0जा0)	2-सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, हापुड़
76-अलीगढ़	2-चकबन्दी अधिकारी, अलीगढ़
116-शेखूपुर	1-जिला कार्यक्रम अधिकारी, बदायूँ
123-बिथरी चैनपुर	1-खण्ड विकास अधिकारी, मझगवां
142-लखीमपुर	1-खण्ड विकास अधिकारी, नकहा
171-लखनऊ पश्चिम	1-जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ
172-लखनऊ उत्तर	2-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लखनऊ
173-लखनऊ पूर्व	1-जिला प्रोबेशन अधिकारी, लखनऊ
174-लखनऊ मध्य	2-जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ
194-फर्रुखाबाद	1-जिला प्रोबेशन अधिकारी, फर्रुखाबाद
200-इटावा	2-खण्ड विकास अधिकारी, बड़पुरा
211-कल्याणपुर	2-उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन व उद्यमिता विकास केन्द्र, कानपुर नगर
214-आर्य नगर	1-खण्ड विकास अधिकारी, पतारा, कानपुर नगर
215-किदवई नगर	2-सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर खण्ड-11, कानपुर नगर
217-महराजपुर	3-सहायक निदेशक मत्स्य, कानपुर नगर
218-घाटमपुर (अ0जा0)	2-जिला कृषि रक्षा अधिकारी, कानपुर नगर

(1)	(2)
239-बिन्दकी	1-खण्ड विकास अधिकारी, मलवां
	2-चकबन्दी अधिकारी, खागा
240-फतेहपुर	1-चकबन्दी अधिकारी, सदर
	2-भूमि संरक्षण अधिकारी, ई0सी0 खागा, फतेहपुर
243-खागा (अ0जा0)	1-खण्ड विकास अधिकारी, हथगाम
	2-जिला सेवायोजन अधिकारी, फतेहपुर
246-कुण्डा	1-खण्ड विकास अधिकारी, कालाकांकर
269-जैदपुर (अ0जा0)	1-खण्ड विकास अधिकारी, मसौली
285-महसी	1-जिला कृषि अधिकारी, बहराइच
289-भिनगा	3-खण्ड विकास अधिकारी, हरिहरपुररानी
290-श्रावस्ती	3-खण्ड विकास अधिकारी, गिलौला
296-गोण्डा	1-खण्ड विकास अधिकारी, झंझरी, गोण्डा
327-बांसगांव (अ0जा0)	3-खण्ड विकास अधिकारी, कौड़ीराम
347-आजमगढ़	1-खण्ड विकास अधिकारी, अहिरौला, आजमगढ़
375-गाजीपुर	1-खण्ड विकास अधिकारी, करण्डा
388-वाराणसी उत्तर	1-उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, वाराणसी
	3-उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, वाराणसी
390-वाराणसी कैंन्टोनमेंट	3-सहायक श्रमायुक्त, वाराणसी
397-मझवां	1-खण्ड विकास अधिकारी, छानबे

आदेश से,
अश्वनी कुमार मोहल,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।